



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूर्णक

खंड 20, संख्या 25.

18 जून 2005

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ रुपये)

मद	2004	2005		घट-बढ़	
	11 जून	3 जून	10 जून #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	3,39,517	3,84,161	3,85,704	1,543	46,188
संचलन में नोट	3,39,497	3,84,148	3,85,697	1,549	46,199
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	19	14	8	-6	-12
जमाराशियां					
केंद्र सरकार	101	100	101	1	—
बाजार स्थिरीकरण योजना	34,625	69,990	69,980	-10	35,355
राज्य सरकार	41	41	41	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	78,048	98,693	1,00,388	1,696	22,340
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,729	1,938	1,856	-81	127
अन्य बैंक	4,666	5,525	5,534	9	868
अन्य	7,610	9,397	9,364	-34	1,754
अन्य देयताएं	1,29,155	1,16,533	1,14,690	-1,843	-14,465
कुल देयताएं / आस्तियां	5,95,491	6,86,378	6,87,658	1,280	92,167
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	5,14,349	5,79,497	5,77,463	-2,034	63,114
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	18,104	19,119	19,119	—	1,015
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	43,747	65,660	69,238	3,577	25,491
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	—	—	—	—
राज्य सरकारें	3,107	183	—	-183	-3,107
नाबार्ड	998	5,001	4,553	-448	3,555
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	—	—	750	750	750
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	32	2	9	7	-23
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	121	90	90	—	-32
खरीदे और भुनाये गये बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	4,473	3,973	3,973	—	-500
अन्य आस्तियां	10,560	12,853	12,465	-388	1,905

⁽¹⁾ विदेशी प्रतिभूतियाँ, विदेशों में रखी गयी राशियाँ और विदेशी शेयरों / बांडों में किये गये निवेश हैं। ⁽²⁾ 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है। ⁽³⁾ इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भण्डार

मद	10 जून 2005 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2005 की समाप्ति पर		दिसम्बर 2004 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भण्डार	6,03,477	1,38,526	-1,928	-135	-15,639	-2,988	31,799	7,348	65,167	19,181
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	5,77,463	1,32,567	-2,034	-163*	-15,658	-3,004	31,997	7,403	63,114	18,495
(ख) स्वर्ण	19,119	4,376	—	—	-567	-124	-850	-206	1,015	402
(ग) विशेष आहरण अधिकार	19	4	—	—	-1	-1	-3	-1	11	2
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	6,876	1,579	106	28	587	141	655	152	1,027	282

* : अ.डा. के रूप में दर्शायी गयी विदेशी मुद्रा आस्तियों में भण्डार में रखी गयी अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** : अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित स्थिति अर्थात प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक ज्ञापन के रूप में दिखाया गया है उसे अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भण्डार में शामिल किया गया है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ रुपये)

मद	27 मई 2005 को बकाया #	घटबढ़				
		पखवाड़ा	अब तक के वित्त वर्ष		वर्ष-दर-वर्ष	
			2004-2005	2005-2006	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	37,175	-869	1,240	403	-2,273	-899
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	27,396	-4,446	-273	-515	-2,807	12,642
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	11,791	-377	421	8,657	-1,514	8,743
अन्यों के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां @	17,78,358	394	44,971	58,411	2,18,105	2,28,971
		(—)	(3.0)	(3.4)	(16.4)	(14.8)
मांग	2,52,926	-4,314	-12,491	-10,891	36,073	40,395
मीयादी @	15,25,432	4,709	57,462	69,301	1,82,032	1,88,576
	[15,21,863]					[1,85,008]
उधार ⁽³⁾	70,321	-1,552	4,966	1,017	13,743	40,685
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1,53,241	-4,074	-6,581	-21,084	8,682	11,738
रिजर्व बैंक से उधार	774	774	819	724	818	-45
पास में नकदी एवं रिजर्व बैंक के पास शेष	99,032	-15,460	5,475	2,504	-6,513	16,663
पास में नकदी	9,429	178	1,136	1,007	-159	395
रिजर्व बैंक के पास शेष	89,603	-15,638	4,338	1,497	-6,355	16,268
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	19,506	215	740	2,740	650	1,805
मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	20,494	-2,049	1,885	138	-9,389	551
बैंकों को अग्रिम	8,937	83	-670	-781	2,921	-916
अन्य आस्तियां	2,968	92	246	517	375	85
निवेश⁽⁵⁾	7,50,144	18,263	44,736	7,081	1,46,235	27,820
		(2.5)	(6.6)	(1.0)	(25.4)	(3.9)
सरकारी प्रतिभूतियां	7,25,333	18,347	44,952	7,542	1,47,761	25,624
	[7,13,141]					[13,432]
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	24,811	-85	-215	-461	-1,526	2,196
बैंक ऋण	11,44,051	6,919	23,211	51,960	1,33,627	2,80,054
		(0.6)	(2.8)	(4.8)	(18.3)	(32.4)
खाद्य ऋण	45,727	1,355	7,551	4,606	-7,535	2,214
खाद्येतर ऋण	10,98,324	5,564	15,661	47,354	1,41,162	2,77,840
	[10,65,642]					[2,45,157]
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	10,85,378	7,605	22,857	53,377	1,25,898	2,73,281
देशी बिल - खरीदे गये	8,042	52	548	657	2,376	525
भुनाये गये ⁽⁶⁾	24,180	-184	190	-1,239	2,510	2,260
विदेशी बिल - खरीदे गये	10,415	-174	-666	-435	62	968
भुनाये गये	16,035	-380	283	-400	2,780	3,020
नकद-जमा अनुपात	5.57					
निवेश-जमा अनुपात	42.18					
ऋण-जमा अनुपात	64.33					

@ : इसमें इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट (आई एम डी) के माध्यम से 17 नवम्बर 2000 से प्राप्त रु.25,662 करोड़ की राशि शामिल है। इन आंकड़ों में 1 अक्टूबर 2003 से रिसर्जेंट इंडिया बाण्ड (आर आई बी) की चुकौती की रु.22,693 करोड़ राशि भी दर्शायी गयी है।

(¹) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिये गये उधारों को छोड़कर। (²) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना सम्भव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्यों के प्रति देयताएं' की तदनुसूची में शामिल कर लिया गया है। (³) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एक्जिम बैंक से इतर। (⁴) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (⁵) इस सारणी में दिये गये निवेश एसएलआर प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिये गये अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (⁶) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाये गये बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित अवधि में प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 1. 3 मई 2002 से हुए विलयों का प्रभाव शामिल है।

2. [] के आंकड़ों में 11 अक्टूबर 2004 से गैर-बैंकिंग संस्था के बैंकिंग संस्था में रूपांतरण का प्रभाव सम्मिलित नहीं है।

4. प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

मद / सप्ताहांत	2004	2005					
	4 जून	29 अप्रैल	6 मई	13 मई	20 मई	27 मई	3 जून
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	4.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आइडीबीआई ⁽²⁾	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
मूल उधार दर ⁽³⁾	10.25-11.00	10.25-10.75	10.25-10.75	10.25-10.75	10.25-10.75	10.25-10.75	10.25-10.75
जमा दर ⁽⁴⁾	5.00-5.50	5.25-6.25	5.25-6.25	5.25-6.25	5.25-6.25	5.25-6.25	5.25-6.25
मांग मुद्रा दर (न्यून/उच्च) ⁽⁵⁾							
- लिये गये उधार	2.50/6.25	2.00/5.25	3.50/5.25	3.50/5.30	3.50/5.25	3.25/5.25	3.00/5.20
- दिये गये उधार	2.50/6.40	2.00/5.25	3.50/5.25	3.50/5.30	3.50/5.25	3.25/5.25	3.00/5.20

(¹) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात। (²) न्यूनतम मीयादी उधार दर (एमटीएलआर)। (³) पांच मुख्य बैंकों से संबंधित मूल उधार दर। (⁴) एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों के लिए प्रमुख बैंकों की जमा दर। (⁵) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेनों का 90-95 प्रतिशत आ जाता है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बाण्डों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपये)

मद	2005 - 2006			2004 - 2005		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (3)-(2)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (6)-(5)
	2005			2004		
	18 मार्च	27 मई		19 मार्च	28 मई	
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक ऋण	10,92,091	11,44,051	51,960 (4.8)	8,40,785	8,63,996	23,211 (2.8)
अ. खाद्य ऋण	41,121	45,727	4,606	35,961	43,512	7,551
आ. खाद्येतर ऋण	10,50,970	10,98,324	47,354 (4.5)	8,04,824	8,20,484	15,661 (1.9)
	[10,18,288]	[10,65,642]				
2. निवेश	93,311	91,914 @	-1,397	88,985	87,169 +	-1,816
अ. वाणिज्यिक पत्र	3,901	3,235	-666	3,770	2,841	-928
आ. निम्न द्वारा जारी शेयर (क+ख)	11,844	12,492	648	8,667	9,749	1,082
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	1,598	1,893	294	1,272	2,036	765
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	10,245	10,599	354	7,395	7,713	318
इ. निम्न द्वारा जारी बाण्ड/ डिबेंचर (क+ख)	77,566	76,187	-1,380	76,548	74,578	-1,970
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	45,646	46,914	1,268	48,646	47,445	-1,200
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	31,920	29,273	-2,648	27,903	27,133	-770
3. वित्तीय संस्थाओं के पास पुनःभुनाये गये बिल	—	—	—	305	330 ++	25
4. कुल (1आ+2+3)	11,44,281	11,90,238	45,957	8,94,114	9,07,983	13,869

@ : 13 मई 2005 तक । + : 14 मई 2004 तक । ++ : 30 अप्रैल 2004 तक ।

टिप्पणी : 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।
 2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।
 3. इनमें 3 मई 2002 से हुए विलयों का प्रभाव शामिल है।
 4. [] के आंकड़ों में 11 अक्टूबर 2004 से गैर-बैंकिंग संस्था के बैंकिंग संस्था में रूपांतरण का प्रभाव सम्मिलित नहीं है।

6. विदेशी मुद्रा दरें - हाजिर और वायदा प्रीमियम

विदेशी मुद्रा		2004		2005				2004		2005				
		11 जून	6 जून	7 जून	8 जून	9 जून	10 जून	11 जून	6 जून	7 जून	8 जून	9 जून	10 जून	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)							विदेशी मुद्रा प्रति रु. 100@ (मध्य दरों पर आधारित)							
अमरीकी डालर		45.0900	43.6000	43.5300	43.5300	43.5500	43.5600							
यूरो		54.1400	53.3700	53.5500	53.6200	53.2200	53.2100							
फेडरल की सांकेतिक दरें (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)														
अमरीकी डालर	{ खरीद	45.0800	43.5900	43.5200	43.5200	43.5400	43.5450	2.2178	2.2936	2.2973	2.2973	2.2962	2.2957	
	बिक्री	45.0900	43.6000	43.5300	43.5300	43.5500	43.5550							
पौण्ड स्टर्लिंग	{ खरीद	82.4250	79.2200	79.6025	79.8725	79.4725	79.1900	1.2115	1.2631	1.2561	1.2516	1.2579	1.2616	
	बिक्री	82.4700	79.2475	79.6350	79.9000	79.5050	79.2175							
यूरो	{ खरीद	54.1225	53.4500	53.5550	53.6200	53.2150	53.1900	1.8471	1.8737	1.8674	1.8650	1.8790	1.8793	
	बिक्री	54.1475	53.4700	53.5800	53.6475	53.2450	53.2250							
100 येन	{ खरीद	40.8900	40.5875	40.7600	40.7075	40.5900	40.4950	244.23	246.47	245.37	245.53	246.35	246.71	
	बिक्री	40.9275	40.6075	40.7825	40.7275	40.6050	40.5250							
अमरीकी डालर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमियम (प्रतिशत वार्षिक)														
1 - माह		1.33	1.14	1.21	1.39	1.57	1.65							
3 - माह		0.75	1.09	1.07	1.23	1.38	1.45							
6 - माह		0.53	1.10	1.07	1.21	1.29	1.30							

@ : ये दरें अमरीकी डालर, यूरो के लिए रिजर्व बैंक की संदर्भ दर और परस्पर लेनदेन मुद्रा भाव की मध्य दरों पर आधारित हैं। 29 जनवरी 1998 से लागू ये दरें रिजर्व बैंक द्वारा घोषित हैं।

टिप्पणी : 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।
 2. रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टाक : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपये)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2005		पखवाड़ा		वित्त वर्ष - अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2004-2005		2005-2006		2004		2005	
	31 मार्च #	27 मई #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम ₃	22,69,156 (22,65,587)	23,46,415 (23,42,846)	-3,957	-0.2	51,948	2.6	77,258	3.4	2,75,761	15.5	2,85,937 (2,82,368)	13.9 (13.7)
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	3,57,424	3,77,500	-5,074	-1.3	15,951	5.1	20,076	5.6	42,096	14.6	46,141	13.9
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	2,97,088	2,86,387	-4,125	-1.4	-15,746	-6.1	-10,701	-3.6	38,451	18.9	44,120	18.2
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा @	16,08,161 (16,04,592)	16,78,202 (16,74,633)	5,198	0.3	53,059	3.7	70,041	4.4	1,93,866	15.0	1,95,154 (1,91,585)	13.2 (12.9)
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	6,483	4,326	44	1.0	-1,316	-25.7	-2,157	-33.3	1,348	54.9	523	13.7
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	7,62,496 (7,50,303)	7,66,273 (7,54,080)	-5,284	-0.7	8,951	1.2	3,777	0.5	41,887	5.9	13,657 (1,464)	1.8 (0.2)
(क) रिजर्व बैंक	-12,197	-16,067	-23,679		-40,648		-3,869		-1,19,286		-20,326	
(ख) अन्य बैंक	7,74,694	7,82,340	18,395	2.4	49,599	7.1	7,646	1.0	1,61,174	27.4	33,982	4.5
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क +ख)	12,75,027 (12,42,345)	13,26,967 (12,94,285)	7,114	0.5	19,512	1.9	51,940	4.1	1,39,569	15.5	2,86,980 (2,54,298)	27.6 (24.5)
(क) रिजर्व बैंक	1,389	1,389	—	—	55	2.6	—	—	-892	-29.7	-726	-34.3
(ख) अन्य बैंक	12,73,637	13,25,577	7,114	0.5	19,458	1.9	51,940	4.1	1,40,462	15.7	2,87,706	27.7
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6,51,998	6,41,524	-260	—	53,093	10.1	-10,474	-1.6	1,61,629	38.7	61,845	10.7
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	7,436	7,436	—	—	29	0.4	—	—	183	2.6	112	1.5
(v) बैंकिंग क्षेत्र की मीयादी जमा से भिन्न निवल मुदेतर देयताएं	4,27,801	3,95,785	5,527	1.4	29,636	10.2	-32,016	-7.5	67,509	26.8	76,656	24.0
उनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	1,25,548	1,11,508	-1,724	-1.5	20,907	19.4	-14,040	-11.2	-3,509	-2.7	-16,983	-13.2

@ : इसमें इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट (आय एम डी) के माध्यम से 17 नवम्बर 2000 से प्राप्त रु.25,662 करोड़ की राशि शामिल है। इन आंकड़ों में 1 अक्टूबर 2003 से रिसर्जेंट इंडिया बाण्ड (आर आय बी) की चुकौती की रु.22,693 करोड़ राशि भी दर्शायी गयी है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़ों में 11 अक्टूबर 2004 से गैर-बैंकिंग संस्था के बैंकिंग संस्था में रूपांतरण का प्रभाव सम्मिलित नहीं है।

8. प्रारक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपये)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2005		सप्ताह		वित्त वर्ष - अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2004-2005		2005-2006		2004		2005	
	31 मार्च #	10 जून #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रारक्षित मुद्रा	4,89,128	5,05,298	3,139	0.6	-1,725	-0.4	16,169	3.3	48,402	12.5	70,511	16.2
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	3,68,649	3,93,133	1,549	0.4	19,794	6.1	24,484	6.6	41,169	13.5	46,311	13.4
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकरो की जमा	1,13,996	1,07,779	1,624	1.5	-19,922	-19.1	-6,218	-5.5	6,431	8.2	23,336	27.6
(iii) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	6,483	4,386	-34	-0.8	-1,596	-31.2	-2,097	-32.3	801	29.5	863	24.5
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया निवल ऋण :	-12,197	-770	3,400		-32,554		11,428		-1,06,950		-13,123	
जिसमें से - केन्द्र को	-13,727	-729	3,583		-27,631		12,998		-1,07,568		-10,017	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - जिसमें से: बैंकों को (नाबार्ड सहित)	6,647	7,924	309	4.1	-3,306	-44.2	1,276	19.2	-4,423	-51.4	3,750	89.8
	5,258	6,534	309	5.0	-3,166	-58.4	1,276	24.3	-3,316	-59.5	4,281	190.0
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6,12,790	5,96,565	-2,034	-0.3	48,023	9.9	-16,225	-2.6	1,47,508	38.3	64,129	12.0
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	7,436	7,436	—	—	29	0.4	—	—	183	2.6	112	1.5
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	1,25,548	1,05,857	-1,465	-1.4	13,917	12.9	-19,691	-15.7	-12,083	-9.0	-15,644	-12.9

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो/रिवर्स रेपो की नीलामी

(करोड़ रुपये)

च.समा.सु. तारीख	रेपो अवधि (दिन)	रेपो (बढ़ाना)					रिवर्स रेपो (घटाना)					प्रणाली में बढ़ाई (+)/से घटाई गयी (-) निवल चलनिधि (11-6)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		न्यूनतम दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		न्यूनतम दर (%)		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6 जून 2005	1	—	—	—	—	—	44	27,345	44	27,345	5.00	-27,345	27,345
7 जून 2005	1	—	—	—	—	—	37	20,900	37	20,900	5.00	-20,900	20,900
8 जून 2005	1	—	—	—	—	—	37	18,095	37	18,095	5.00	-18,095	18,095
9 जून 2005	1	—	—	—	—	—	30	12,170	30	12,170	5.00	-12,170	12,170
10 जून 2005	3	—	—	—	—	—	29	13,620	29	13,620	5.00	-13,620	13,620

@ : रातभर के रेपो को घटाकर। * — : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।
टिप्पणी : 29 अक्टूबर 2004 से रिपो और रिवर्स रिपो के नाम अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग के अनुसार बदल दिए गए हैं। 28 अक्टूबर 2004 तक रिपो का अर्थ चलनिधि का घटाना था जबकि रिवर्स रिपो का अर्थ रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि को बढ़ाना था।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			पर भार भा.रि. बैंक	कुल निर्गम (8+9+10)	भारित औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)	
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य							
				प्रति-स्पर्धी	अप्रति-स्पर्धी		प्रति-स्पर्धी	अप्रति-स्पर्धी						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
91-दिवसीय खजाना बिल														
2004-2005	29 सित. 5 जन.	1 अक्टू. 7 जन.	2,000	65	2,391	—	53	2,000	—	—	2,000	98.77	5.0223	24,749
			2,000	80	4,978	—	51	2,000	—	—	2,000	98.72	5.2418	22,312
2005-2006	30 मार्च 8 जून	2 अप्रैल 10 जून	2,000	45	4,223	125	24	2,000	125	—	2,125	98.69	5.3241	27,917
			2,000	50	2,959	912	40	2,000	912	—	2,912	98.72	5.2418	29,755
182-दिवसीय खजाना बिल														
2005-2006	6 अप्रैल 1 जून	8 अप्रैल 3 जून	1,500	73	6,710	—	14	1,500	—	—	1,500	97.36	5.4381	1,500
			1,500	48	4,493	170	27	1,500	170	—	1,670	97.41	5.3535	7,670
364-दिवसीय खजाना बिल														
2004-2005	29 सित. 5 जन.	1 अक्टू. 7 जन.	2,000	119	6,466	—	28	2,000	—	—	2,000	94.92	5.3741	38,122
			2,000	57	4,346	3	36	2,000	3	—	2,003	94.70	5.6232	42,126
2005-2006	13 अप्रैल 8 जून	15 अप्रैल 10 जून	2,000	86	6,195	80	40	2,000	80	—	2,080	94.68	5.6456	48,212
			2,000	56	4,130	200	37	2,000	200	—	2,200	94.73	5.6008	48,411

टिप्पणियाँ : 1. एकसमान मूल्य नीलामी का श्रीगणेश 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को हुआ। नीलामी का फॉर्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित है।
2. बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत 91 दिवसीय खजाना बिलों के लिए अधिसूचित राशि रु. 2,000 करोड़ में रु. 1,500 करोड़ शामिल है। 182 दिवसीय खजाना बिलों हेतु अधिसूचित राशि रु. 1,500 करोड़ में एमएसएस के तहत रु. 1,000 करोड़ है। 364 दिवसीय खजाना बिलों हेतु अधिसूचित राशि रु. 2,000 करोड़ में एमएसएस के तहत रु. 1,000 करोड़ है।
3. 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में 2 जून 1999 से प्रभावी नीलामी में प्रतियोगितेतर बोलियाँ शामिल हैं।
4. 27 अक्टूबर 2004 से नीलामी में व्यवच्छेदन मूल्य के अन्तर्निहित लाभ की प्रस्तुति वास्तविक /364 दिवस गिनती कन्वेंशन का वास्तविक /365 दिवस गिनती कन्वेंशन से परिवर्तित है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास संचयी नकद शेष

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	दिनांक														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
27 मई 2005	14 मई	15 मई	16 मई	17 मई	18 मई	19 मई	20 मई	21 मई	22 मई	23 मई	24 मई	25 मई	26 मई	27 मई	
	1,06,380	2,12,761	3,12,187	4,09,650	5,05,955	6,00,825	6,99,191	8,04,367	9,09,544	10,14,707	11,14,872	12,02,992	12,92,740	13,81,989	
10 जून 2005	28 मई	29 मई	30 मई	31 मई	1 जून	2 जून	3 जून	4 जून	5 जून	6 जून	7 जून	8 जून	9 जून	10 जून	
	90,320	1,80,641	2,85,080	3,87,179	4,85,131	5,86,119	6,83,637	7,82,971	8,82,305	9,79,615	10,70,231	11,64,772	12,64,026	13,62,895	

टिप्पणी : आंकड़े पखवाड़े के दौरान संचयी आधार पर भा.रि. बैंक के पास रखी जाने वाली अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद से संबंधित हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किये गये जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
9 जुलाई 2004	5,529	166	4.14 — 6.75
1 अक्टू. 2004	5,164	95	3.50 — 5.50
7 जन. 2005	7,033	563	3.91 — 6.26
1 अप्रैल 2005	14,975	3,395	4.75 — 6.60
15 अप्रैल 2005	14,106	2,640	4.10 — 6.60
29 अप्रैल 2005	16,602	2,866	4.24 — 6.50

@ : प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दायरा।

13. कम्पनियों द्वारा जारी किये गये वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 जुलाई 2004	10,688	954	4.63 — 7.00
15 अक्टू. 2004	10,712	542	4.95 — 7.25
15 जन. 2005	12,215	1,624	5.40 — 6.35
15 अप्रैल 2005	14,809	1,964	5.55 — 6.33
31 मई 2005	16,652	2,259	5.40 — 6.65
15 जून 2005	17,207	1,408	5.42 — 6.65

@ : पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू विशिष्ट वार्षिक बड़ा दर का दायरा।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 1993-94=100)

मद / समाप्त सप्ताह	भार	2004	2005		पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		29 मई	2 अप्रैल *	28 मई #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य	100.00	182.7	191.0	192.2	0.1	0.1	1.4	5.2
प्राथमिक वस्तुएं	22.02	190.1	186.1	189.1	0.2	0.3	3.1	-0.5
(i) फल और सब्जियां	2.92	206.9	212.2	220.2	-1.9	-1.8	14.0	6.4
ईंधन, विद्युत, प्रकाश और स्नेहक	14.23	264.4	292.5	293.1	—	—	0.9	10.9
विनिर्मित उत्पाद	63.75	161.9	170.1	170.7	0.1	-0.1	0.9	5.4
i) चीनी, खांडसारी और गुड़	3.93	156.3	174.9	173.2	-0.5	-1.1	-0.5	10.8
ii) खाद्य तेल	2.76	158.1	148.2	146.8	0.1	-0.5	-0.4	-7.1
iii) सीमेंट	1.73	153.6	164.2	164.4	0.2	0.1	0.1	7.0
iv) लोहा और इस्पात	3.64	202.0	254.0	257.7	-0.4	-0.5	5.1	27.6

* : उपलब्ध अद्यतन अंतिम आंकड़े।

: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2004	2005				
	10 जून	6 जून	7 जून	8 जून	9 जून	10 जून
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	4944.64	6758.19	6781.25	6858.24	6832.53	6781.99
एसएण्डपी सीएनएस निफ्टी (3.11.1995=1000)	1544.75	2092.80	2098.15	2112.40	2103.20	2090.60

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त (टर्नओवर)*

(करोड़ रुपये)

	निम्न को समाप्त सप्ताह						
	29 अप्रैल 2005	6 मई 2005	13 मई 2005	20 मई 2005	27 मई 2005	3 जून 2005	10 जून 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिये गये उधार	5,817	5,842	6,804	6,692	3,774	5,864	6,541
ख) दिये गये ऋण	6,448	6,482	7,578	7,109	5,123	6,974	8,660
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिये गये उधार	1,905	2,072	2,106	1,880	2,141	2,242	3,355
ख) दिये गये ऋण	23	18	86	40	9	1	4
3. बैंकेतर संस्थाएं							
क) दिये गये ऋण	1,252	1,415	1,247	1,422	783	1,131	1,232
4. कुल							
क) लिये गये उधार	7,722	7,914	8,910	8,572	5,915	8,106	9,896
ख) दिये गये ऋण	7,723	7,915	8,911	8,571	5,915	8,106	9,896

* : इनमें सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेनों के 90-95 प्रतिशत आंकड़े शामिल हैं।

ये आंकड़े सप्ताह के लिए दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य) @

(करोड़ रुपये)

मद	निम्न को समाप्त सप्ताह					
	6 मई 2005	13 मई 2005	20 मई 2005	27 मई 2005	3 जून 2005	10 जून 2005
1	2	3	4	5	6	7
I. सीधा (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियां	29,736	25,649	32,788	22,116	31,045	70,251
ख) राज्य सरकार प्रतिभूतियां	211	581	2,552	1,449	1,543	1,455
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	4,788	3,086	3,142	2,946	3,984	3,570
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	171	517	383	769	917	125
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	7,586	13,079	4,635	5,396	6,796	4,867
II. भारतीय रिज़र्व बैंक *	176	—	20	129	398	9

@ : रेपो लेनदेनों को छोड़कर।

* : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद में उसके अन्य कार्यालयों के लेनदेन भी शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी डालर)

निम्नलिखित तारीख को स्थिति	वणिज्य						अंतर-बैंक					
	विदेशी मुद्रा / भारतीय रुपया			विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा			विदेशी मुद्रा / भारतीय रुपया			विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	स्वैप	वायदा	हाजिर	स्वैप	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
23 मई 2005 +												
24 मई 2005	1,043	454	142	110	317	284	1,367	1,546	155	1,477	706	23
25 मई 2005	671	371	56	68	159	169	1,139	1,805	117	1,422	296	72
26 मई 2005	645	310	126	117	361	220	1,077	1,874	316	1,534	886	88
27 मई 2005	838	379	307	158	232	265	1,334	1,909	226	1,360	502	136
बिक्री												
23 मई 2005 +												
24 मई 2005	1,279	403	178	126	335	266	1,289	1,384	79	1,465	1,034	29
25 मई 2005	827	215	234	74	159	181	1,088	1,517	98	1,398	637	60
26 मई 2005	545	272	198	112	329	232	1,000	1,424	297	1,574	1,276	56
27 मई 2005	943	354	351	127	221	265	1,211	1,899	164	1,399	875	71

टिप्पणी: ये आंकड़े वणिज्य और अंतर-बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

+ : बाजार बंद।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ रुपये)

	समाप्त सप्ताह					
	7 मई 2005	14 मई 2005	21 मई 2005	28 मई 2005	4 जून 2005	11 जून 2005
1	2	3	4	5	6	7
राशि	479.39	293.55	372.84	356.49	356.37	520.32

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ रुपये)

धारक	10 जून 2005					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (2+3+4+5)	सप्ताह की तुलना में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	21,892	7,053	42,382	71,327	148	9,348
राज्य सरकारें	29,095	3,725	170	280	33,270	3,694	17,200
अन्य	306	4,138	447	5,749	10,640	-140	-620

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार
(भा.रि.बैंक पर भार (डिवाल्मेंट)/ निजी स्थानन तथा खुला बाजार परिचालनों में बिक्री / खरीद) (अंकित मूल्य करोड़ रुपये में)

	जुटायी गयी सकल राशि			जुटायी गयी निवल राशि		
	2005-2006 (10 जून 2005 तक)	2004-2005 (11 जून 2004 तक)	2004-2005	2005-2006 (10 जून 2005 तक)	2004-2005 (11 जून 2004 तक)	2004-2005
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल जिसमें :	37,000	34,000 *	1,05,350 \$	28,320	28,467 *	71,034 \$
1.1 भारिबैं पर भार / निजी स्थानन	—	—	1,197	—	—	—
2. भारिबैं के खुला बाजार परिचालन - बिक्री खरीद	996	429	2,899	—	—	—

\$: बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।

* : एमएसएस के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य) @

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	3 जून 2005 को समाप्त सप्ताह			10 जून 2005 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक**		राशि	परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक**	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. सीधा (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2005-06	20	5.3289	5.7737	20	5.3356	5.3356
2006-07	240	5.6973	5.8367	340	5.6884	5.7049
2007-08	170	6.0500	6.1055	315	5.9376	6.0704
2008-09	735	6.2990	6.9018	2,019	6.2172	6.8202
2009-10	426	6.5122	7.0375	601	6.4071	6.9354
2010-11	5,637	6.6820	7.0954	6,848	6.5211	6.9690
2011-14	2,495	6.4890	7.2324	8,712	6.4855	7.1409
2014-15	533	7.1500	7.2790	7,602	6.7231	7.1701
2015 से आगे	5,266	6.9095	7.7462	8,668	6.7747	7.6528
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	771	6.3591	7.7693	728	6.8583	7.6526
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिनों तक	246	5.0389	5.0808	298	5.0601	5.5123
ख) 15 - 91 दिन	2,055	4.9996	5.2006	1,849	5.0402	5.2401
ग) 92 - 182 दिन	674	5.1851	5.3600	278	5.2099	5.3671
घ) 183 - 364 दिन	2,875	5.3976	5.6404	1,857	5.3999	5.5900
II. भा.रि.बैं. : बिक्री	398			9		
: खरीद	—			—		
III. रेपो कारोबार £ (भा. रि. बैं. से इतर)						
	राशि	दर (% वार्षिक)		राशि	दर (% वार्षिक)	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	20,946	4.00 (1)	5.05 (3)	20,092	4.25 (1)	5.50 (7)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1,865	4.50 (1)	5.00 (7)	1,732	4.85 (1)	5.00 (5)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	2,085	4.75 (1)	5.00 (3)	2,635	4.25 (1)	5.15 (3)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	24	4.90 (1)	4.90 (3)	84	4.90 (1)	5.00 (3)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	2,377	4.35 (1)	5.10 (3)	4,071	4.75 (1)	5.50 (3)
IV. भा.रि.बैं. : रेपो £^	—	—	—	—	—	—
: रिवर्स रेपो !	1,21,765	5.00	5.00	92,130	5.00	5.00

@ : भा.रि.बैं., मुंबई के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना के अनुसार, जो वर्तमान में देश के कुल कारोबार का लगभग 98 प्रतिशत है।

* : भा.रि.बैं. बिक्री और खरीद में अन्य कार्यालयों में हुए लेनदेन भी शामिल हैं।

£ : कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ : दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो नीलामी शामिल है।

** : न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) मानकेतर आकार समूह (5 करोड़ रुपये से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े रेपो अवधि दर्शाते हैं।

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाये।
साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अंतिम

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का वार्षिक और त्रैवार्षिक शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः **400 रुपये** और **1,100 रुपये** तथा विदेश के लिए क्रमशः **25 अमरीकी डालर** और **70 अमरीकी डालर** है। एक प्रति का मूल्य **8 रुपये** है।

श्री मुनीश कपूर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई - 400 001 के लिए प्रकाशित और उनके द्वारा ऑनलुकर प्रेस लि., राजा बहादुर कम्पाउण्ड, हमाम स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001 में मुद्रित।

पंजीकरण सं. आरएन.43801/86

पंजीकृत सं.

टेक/47-400 / एमबीआइ / 2003-05